



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 391] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 1982/भाद्र 12, 1904
No. 391] NEW DELHI, FRIDAY, SEPT. 3, 1982/BHADRA 12, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय
निर्यात व्यापार नियंत्रण
आदेश

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1982

क्रा. आ. 646(अ)/सं. ई(सी)प्रो, 1977/एएम (250) .—आयात तथा निर्यात
(नियंत्रण) अधिनियम, 1977 (1977 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का
प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे संशोधन
करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 21वें संशोधन आदेश, 1982 की संज्ञा दी
जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में,—

(1) खुले सामान्य लाइसेंस-3 में, क्रम सं. 39 के सामने के कालम 4 में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

“लाल चन्दन की लकड़ी को छोड़कर सभी अनुमय गन्तव्य स्थानों की सभी प्रकार की संसाधित इमारती लकड़ी के निर्यात की अनुमति है। इमारती लकड़ी की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में, लाल चन्दन की लकड़ी से बनी संसाधित इमारती लकड़ी की अनुमति केवल मुख्य वन संरक्षक, आन्ध्र प्रदेश द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी।

(2) खुले सामान्य लाइसेंस 3 में, क्रम सं. 38(2) के सामने के कालम 4 में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

“इमारती लकड़ी की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में निर्यात की अनुमति केवल मुख्य वन संरक्षक, आन्ध्र प्रदेश द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी।”

[मिसिल सं. 6/8/81-ई. 1]

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

**MINISTRY OF COMMERCE
EXPORT TRADE CONTROL**

ORDER

New Delhi, the 3rd September, 1982

S.O. 646(E)/No. E(C)O, 1977/AM(250).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports, (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Twenty-first Amendment Order, 1982.

2. In the Exports (Control) Order, 1977—

(i) in OGL. 3, the following shall be added in Column 4 against S. No. 39 :—

“Export of Processed timber, all species, except Red Sanders wood will be allowed to all permissible destinations. Processed timber made out of Red Sanders wood will be allowed only on production of Certificate of Origin issued by the Chief Conservator of Forests, Andhra Pradesh, as regards procurement of the timber.”

(ii) in OGL. 3, the following shall be added in Column 4 against S. No. 38(ii):—

“Export will be allowed only on production of Certificate of Origin issued by the Chief Conservator of Forests, Andhra Pradesh, as regards procurement of timber.”

[F. No. 6/8/81-EI]

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of
Imports & Exports.

